



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 464 राँची, बुधवार

10 आषाढ, 1937 (श०)

1 जुलाई, 2015 (ई०)

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

25 जून, 2015

संख्या-4/न.वि./गठन/110/2015-...2203(अनु)-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) (ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, बोकारो जिलान्तर्गत उकरीद, तेतुलिया, सतनपुर, माराफारी, रितुडीह, बांसगोडा, हेसाबातु एवं गोडाबाली राजस्व ग्रामो को मिलाकर कुल जनसंख्या-54498 होने के फलस्वरूप लघुतर शहरी क्षेत्र नगर परिषद्-वर्ग 'ख' के रूप में घोषित करने संबंधी "प्रारूप आदेश" निर्गत करना चाहते हैं।

इससे प्रभावित होनेवाले व्यक्तियों के सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इस अधिसूचना के "झारखण्ड गजट" में प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर माराफारी नगर परिषद् वर्ग 'ख' के गठन के प्रस्ताव/प्रारूप पर आपत्ति एवं सुझाव, उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में समर्पित कर सकते हैं।

उपर्युक्त अवधि के दौरान उपायुक्त, बोकारो के कार्यालय में प्राप्त आपत्तियो/सुझावों को झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-5 की उपधारा-(2) के अधीन उपायुक्त, बोकारो द्वारा विचार करते हुए उनके निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रारूप आदेश

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखण्ड अधिनियम, 07, 2012) की धारा-3 की उपधारा (1), (2) (ब), धारा-4, 5, 6 एवं 8 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ बोकारो जिलान्तर्गत 8 राजस्व ग्रामों यथा-उकरीद, तेतुलिया, सतनपुर, माराफारी, रितुडीह, बांसगोड़ा, हेसाबातु एवं गोड़ाबाली (राजस्व ग्रामों की सूची जनसंख्या सहित अनुलग्न-1 के रूप में संलग्न) को मिलाकर लघुतर शहरी क्षेत्र (माराफारी नगर परिषद् वर्ग-'ख') के रूप में घोषित करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अजय कुमार सिंह,

सरकार के सचिव ।

अनुलग्नक-1

नगर विकास विभाग

माराफारी नगर परिषद् का गठन

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-732 दिनांक 30 मई, 2015 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बोकारो जिलान्तर्गत प्रस्तावित माराफारी नगर परिषद् में सम्मिलित होने वाले 08 राजस्व ग्रामों की सूची:-

क्र.	ग्राम का नाम	थाना संख्या	जनसंख्या (वर्ष 2011 के अनुसार)	क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	जनसंख्या घनत्व
1	उकरीद	37	6004	5.27	1139
2	तेतुलिया	38	7085	2.60	2725

3	सतनपुर	39	3808	4.57	833
4	माराफारी	181	4431	29.06	152
5	रितुडीह	185	4449	1.31	3396
6	बांसगोड़ा	186	9013	2.72	3314
7	हेसाबातु	187	9030	4.37	2066
8	गोड़ाबाली	179	10678	22.32	998
	कुल-		54498	72.22	14623
		औसत जनसंख्या घनत्व-			754.61
